

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 2001 (फाल्गुन 26, 1922)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 2001 (PHALGUNA 26, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 275	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	227	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक प्रादेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1219
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	235	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों के संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	181
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रथमा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विधिवि अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आवेग, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1699
भाग II—खण्ड 2—विधिवक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—भारत सरकार के अधिकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	15
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—ब्रिटेन और हिन्दी दोनों में जन-और-मुख के संकेतों की बरती जाना सम्बन्ध	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	275
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	227
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	235
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1219
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	181
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1699
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	45
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2001

शुद्धिपत्र

सं० 49-प्रेज/2001-भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में 9 मार्च, 1974 को प्रकाशित "सेना मैडल"/"आर्मी मेडल" के संबंध में इस सचिवालय की 27 फरवरी, 1974 की अधिसूचना सं० 29-प्रेज/74 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :—

क्रम संख्या 135 में नाम "हवलदार अजीत सिंह" की जगह "हवलदार जीत सिंह" पढ़ा जाए।

वरुण मिश्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० यू-13019/1/97-एन एल—इस मंत्रालय की दिनांक 10 जून, 1999 की अधिसूचना सं० यू-13019/1/97-एन एल के अधिकरण में, राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 21-11-1996 की अधिसूचना सं० यू-13019/1/96-एन एल के पैरा 2 (ग) के अनुसरण में, अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री विनायक जोशी
2. श्रीमती कुमार राधवन
3. श्री बी० कर्मा राध
4. श्री गुरुपद बिस्वास
5. श्री रामवास दास

उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 2 (घ) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी सदस्य नामित करते हैं :—

1. श्री इब्राहिम अली हुसैन
2. श्रीमती आईशा मजीद

यह भी निर्णय लिया गया है कि इस सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित होंगे :—

1. श्री एच० एन० अरोड़ा
2. श्री मनोरंजन भक्त

पी० के० जलाली, सयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2001

संकल्प

सं० ई-11017/2/2000-हिन्दी —खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन विषयक दिनांक 23 नवंबर, 2000 के समसंख्यक संकल्प में गैर सरकारी सदस्य शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 13 के बाव 13-क और 13-ख के रूप में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाती हैं :—

- | | | |
|------|--|--------|
| 13-क | श्री नागेंद्र सिंह
ग्राम जरहा, पोस्ट डेल्ही (मनगवा),
जिला रोवा (म० प्र०) | —सदस्य |
| 13-ख | श्री सुदेश वर्मा,
जिला छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश। | —सदस्य |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सरकारी और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासको, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सेवा सचिवालय, राज्य सभी सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व माधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मह्यप्रिय गुप्ता
संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 23 जनवरी 2001

संकल्प

सं० 2-31/2000 :—पुनर्गठन भारत के राष्ट्रपति (सचिव भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के माध्यम से) और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच 30 सितम्बर 2000 को हुए समझौता ज्ञापन की हैसियत से, देश में दूर-संचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क का अनुरक्षण करने/दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग द्वारा दूरसंचार फैंडरियों को चराने संबंधी कार्य (इहले दूर-संचार विभाग द्वारा किए जाते थे) 1 अक्टूबर 2000 से नवगठित कंपनी भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल) को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

2. दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं (दूरसंचार विभाग द्वारा रखी जाने वाली कतिपय परिसंपत्तियों को छोड़कर जो दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन यूनिटों और कार्यालयों के लिए अपेक्षित हैं) उक्त तारीख से बीएसएनएल में अन्तर्गत हो जाएंगी।

3. उाकरणों और मयत्तों, सामग्री की आपूर्ति भूमि और भवन की खरीद तथा सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग द्वारा विभिन्न आगूरकों, ठेकेदारों, विक्रेताओं, कंपनियों और अलग-अलग व्यक्तियों से किए गए सभी मौजूदा ठेके, करार और समझौता ज्ञापन, कारोबार के हस्तांतरण की तारीख को वैसे के वैसे बने रहेंगे और/अथवा बीएसएनएल के

प्रचालनों के लिए अपेक्षित ठेके, करार, आदि 1 अक्टूबर 2000 से बीएसएनएल को हस्तांतरित तथा सौंपे गए माने गए हैं।

4. मयोजित कार्य-निष्पादन हेतु इन ठेकों, करारों और समझौता-ज्ञापनों को बनाए रखने तथा उक्त ठेकों, करारों और समझौता-ज्ञापन के तहत उत्तराधिकारी/अधिन्यासी के बतौर मुकदमा चराने और मुकदमा चराने संबंधी विवादों के मामले में बीएसएनएल पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और किसी तरह की चूक होने, विस्मय होने अथवा कार्य निष्पादित न कर पाने के लिए भी वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. 1 अक्टूबर 2000 से पूर्व दूरसंचार सेवा विभाग अथवा दूरसंचार प्रचालन विभाग का कोई पताचार बिल, नोटिस और अन्य दस्तावेज भले वह दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग द्वारा जारी किया गया हो, 1 अक्टूबर 2000 से जहां कहीं भी ऐसा संदर्भ आए, उसे बीएसएनएल के हवाले के रूप में पढ़ा जाए।

6. 1 अक्टूबर 2000 से बीएसएनएल द्वारा जारी किसी बिल नोटिस अथवा अन्य दस्तावेज जिसके सम्बन्ध में दूरसंचार सेवा विभाग अथवा दूरसंचार प्रचालन विभाग का कोई हवाला दिया गया हो जहां कहीं भी ऐसा संदर्भ आए, उसे बीएसएनएल के हवाले के रूप में ही पढ़ा जाए।

7. 1 अक्टूबर 2000 से सभी बैंकों/ड्राफ्टों/अन्य दस्तावेजों, जिनके तहत दूरसंचार सेवा विभाग और/अथवा दूरसंचार प्रचालन विभाग को दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पक्ष में भुगतान किया जाना है, जहां कहीं ऐसा संदर्भ आए, धन-राशि भारत संचार निगम लि० के पक्ष में आहरित होगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों को संप्रेषित की जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हरीश कुमार
निदेशक (पुनर्गठन)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th February 2001

CORRIGENDUM

No. 49-Pres/2001 :—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 29-Pres/74 dated 27th February, 1974 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 9th March,

1974 relating to the award of "Sena Medal"/"Army Medal" :—

In serial number 135, the name appearing as "Havildar Ajit Singh" may be read as "Havildar Jit Singh".

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2001

No. U-13019/1/97-ANL—In supersession of this Ministry's notification No. U-13019/1/97-ANL dated the 10th June, 1999, the President is pleased to appoint the following persons as Members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in terms of para 2 (c) of this Ministry's notification No. U-13019/1/96-ANL dated 21-11-96 :

1. Shri Vishal Jolly
2. Smt. Kumar Raghavan
3. Shri B. Kurma Rao
4. Shri Gurupada Biswas
5. Shri Ramadas Das

The President is further pleased to nominate the following persons to be the Members of Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in terms of para 2 (c) of the above mentioned notification :—

1. Shri Ebrahim Ali Hussain
2. Smt. Ayesha Majeed

It has also been decided that the following persons will be the permanent invitees to attend the meetings of this Advisory Committee :—

1. Shri H. N. Arora
2. Shri Manoranjan Bhakta

P. K. JALALI, Jt. Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi-110001, the 15 February 2001

RESOLUTION

No. E-11017/2/2000-Hindi.—In the Ministry of Mines Resolution of even number dated 23rd November, 2000 regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Mines under the heading "Non-Official Members", the following entries shall be added after Serial No. 13 as 13A and 13B :

- | | | |
|------|---|----------|
| 13A— | Sh. Nagendra Singh
Village : Zerha
Post Office : Dailhi (Manganwa)
Distt : Rewa (M.P.) | - Member |
| 13B— | Sh. Sudesh Verma,
Distt. Chhindwada,
(Madhya Pradesh) | - Member |

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and the Administrations of the Union Territories, Office of the Prime Minister, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language, and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. GUPTA
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 23rd. January 2001

RESOLUTION

No. 2-31/2000-Restg.—By virtue of the Memorandum of Understanding dated 30th. September 2000 entered into between the President of India, [acting through the Secretary to the Government of India, Ministry of Communications, Department of Telecommunications (DoT)] and Bharat Sanchar Nigam Limited, the business of providing telecomm services in the country, maintaining the telecomm network/running the telecom factories by the Department of Telecom Services (DTS) and the Department of Telecom Operations (DTO) [which were earlier provided by Department of Telecommunications (DoT)] has been transferred to the newly formed company viz. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) with effect from 1st October 2000.

2. All assets & liabilities (except certain assets which will be retained by DoT required for the units and offices under control of DoT) of the Department of Telecom Services (DTS) and the Department of Telecom Operations (DTO) stand transferred to BSNL w.e.f. the said date.

3. All the existing contracts, agreements and MOUs entered into by Department of Telecommunications, Department of Telecom Services and the Department of Telecom Operations with various suppliers, contractors, vendors, companies and individuals in respect of supply of apparatus and plants, materials, purchase of land and building and supply

of services, subsisting on date of transfer of business and/or required for operations of BSNL also stand transferred and assigned to BSNL w.e.f. 1st. October 2000.

4. BSNL is solely responsible for honouring these contracts, agreements and MOUs for due performance and in case of disputes to sue and be sued as the successor/assignee under the said contract agreement and MOU and shall be liable for any defaults, delays or non performance.

5. With effect from 1st October 2000 any reference in any correspondence, bills, notices, and other documents to the Department of Telecom Services or the Department of Telecom Operations having been issued before 1st October 2000 by either the Department of Telecom Services or the Department of Telecom Operations shall, wherever the context so permits and allows, be read as reference to the BSNL.

6. With effect from 1st October, 2000 any bill, notice or other document issued by the BSNL bearing any reference to the Department of Telecom Services

or the Department of Telecom Operations shall, wherever the context so permits and allows, be read to be a reference to the BSNL.

7. With effect from 1st October, 2000 all cheques/drafts/other instruments under which payment is to be made in favour of the Government of India in respect of monies owed to the Department of Telecom Services and/or the Department of Telecom Operations shall, wherever the context so permits and allows, be drawn in favour of 'Bharat Sanchar Nigam Limited.

ORDER

ORDERED that a Copy of this resolution be communicated to all State Governments, all Ministries and Departments of Gov. of India.

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

HARISH KUMAR
Director (Resg.)